



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २८७] मई विल्ली, गृहस्पतिवार, दिसम्बर २१, १९७२/अग्रहायण ३०, १८९४

No 287] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 21, 1972/AGRAHAYANA 30, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 21st December, 1972.

SUBJECT:—*Import Policy for Registered Exporters for the year April 1972—March 1973 (Amendment No. 40).*

No. 188-ITC(PN)/72—Attention is invited to the Import Policy for Registered Exporters contained in the Import Trade Control Policy Book (Red Book) Volume II for the period April 1972—March 1973, issued under the Ministry of Foreign Trade Public Notice No. 47-ITC(PN)/72, dated 3-4-1972.

2. In para 26 of Part B of Section I of the aforesaid Red Book, it is provided that nomination is permissible in respect of products falling in the same "Category" or "Product Group" where there is no category. In the case of product Group "H-HANDICRAFTS", there are six categories at present.

3. On review of the matter, it has been decided that all the export products of Handicrafts falling under H.1, H.2, H.3 and H.6.1 will be covered under one category for purpose of nomination in terms of para 26 referred to above.

4. The following amendments may be made at the appropriate places as indicated below:—

Page No. of Red Book Vol. II	Reference	Amendments
137	H.1 Col. 5	After remark (1), the following remark may be added:— “(2) Nomination may be made in favour of a manufacturer of lacquers.”
139	H.6.1 Col. 5	The following remark may be inserted:— “(1) Nomination may be made in favour of a manufacturer of lacquers.”
139	H.6.2 Col. 5	The following remark may be inserted:— “(1) Nomination may be made in favour of a manufacturer of Dyes and Chemicals used in the exported products.”

5. The above decisions will be applicable in respect of exports made on or after 1-10-72.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports,

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 1972

विषय.—अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिये पंजीकृत निर्यातकों के लिये आयात नीति (संशोधन सं० 40) ।

संख्या 188-आई० टी० सी० (पीएन)/72.—विदेश व्यापार मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 47-आई० टी० सी० (पी० एन०)/72 दिनांक 3-4-1972 के अन्तर्गत के अप्रैल, 1972—मार्च, 1973 वर्ष के लिये जारी की गई आयात व्यापार नियंत्रण नीति पुस्तक (रेडबुक) के वा० 2 में पंजीकृत निर्यातकों के लिये निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

2 उपर्युक्त रेडबुक के खंड 1 के भाग बी की कंडिका 26 में यह व्यवस्था की गई है कि जहां कोई भी श्रेणी नहीं है वो उत्पाद जो उसी “श्रेणी” अथवा “उत्पाद वर्ग” के अन्तर्गत आते हैं, उनके सम्बन्ध में नामांकन स्वीकृत हैं । “एच-हस्तशिल्प” उत्पाद वर्ग के मामले में अभी 6^१ श्रेणियां हैं ।

3. मामले की पुनरीक्षा करने पर यह निश्चय किया गया है कि हस्तशिल्प के सभी निर्यात उत्पाद जो एच० 1, एच० 2, एच० 3, तथा एच० 6.1 के अन्तर्गत आते हैं, उपर्युक्त कंडिका 26 के अनुसार नामांकन के प्रयोजन हेतु एक श्रेणी के अन्तर्गत लिये जायेंगे ।

4. निम्नलिखित संशोधन नीचे निविष्टानुसार उपयुक्त स्थानों पर किये जायें :—

रेडबुक वा० 2 की पृष्ठ संख्या	संदर्भ	संशोधन
137	एच० 1 कालम 5	टिप्पणी (1) के बाद निम्नलिखित टिप्पणी को जोड़ा जाये :— “(2) रोगन के निर्माणकर्ता के नाम में नामांकन किया जाये।”
139	एच० 6 कालम 5	निम्नलिखित टिप्पणी निविष्ट की जाये :— “(1) रोगन के निर्माणकर्ता के नाम नामांकन किया जाये।”
139	एच० 6.2 कालम 5	निम्नलिखित टिप्पणी निविष्ट की जाये :— “(1) निर्यातित उत्पादों में उपयोग होने वाले रंग और रसायनों के निर्माणकर्ता के नाम में नामांकन किया जाये।”

5. उपर्युक्त निर्णय 1-10-72 को या इससे पूर्व के किये गये निर्णयों के लिये लागू होंगे ।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक आयात-निर्यात ।

